



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 631]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 13, 2002/आषाढ़ 22, 1924

No. 631]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 13, 2002/ASADHA 22, 1924

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2002

**का.आ. 743(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ तिरसठवां संशोधन) नियम, 2002 है।
- (2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में,—

(क) “पर्यावरण तथा वन मंत्रालय” शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 25 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

“26. पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59)।

27. पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण।

28. कांजी हौस और पशु अतिचार से संबंधित मामले।

29. गौशाला और गोसदन।”;

(ख) “सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय” शीर्षक के नीचे, प्रविष्टियां 18 से 21 का लोप किया जाएगा।”।

के. आर. नारायणन

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2002-मंत्रि.]

अतुल कौशिक, उप सचिव

## CABINET SECRETARIAT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2002

**S.O. 743(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and sixty-third Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule, —

(a) under the heading “MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PARYAVARAN TATHA VAN MANTRALAYA)” after entry 25, the following entries shall be added, namely :—

“26. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960).

27. Prevention of cruelty to animals.

28. Matters relating to pounds and cattle trespass.

29. Gaushalas and Gausadans.”;

(b) under the heading “MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SANKHYIKI AUR KARYAKRAM KARYANVAYAN MANTRALAYA)”, entries 18 to 21 shall be omitted.”.

K. R. NARAYANAN

President

[F.No. 1/22/1/2002-CAB.]

ATUL KAUSHIK, Dy. Secy.